

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में, प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि, माल या सेवा या दोनों की सितम्बर, 2018 मास के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके कारबार का मूल स्थान आंध्र-प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिले में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 30 नवम्बर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएँगे:

परंतु यह भी कि, माल या सेवा या दोनों की अक्तूबर, 2018 मास के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके कारबार का मूल स्थान आंध्र-प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिले में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 30 नवम्बर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएँगे:

परंतु यह भी कि, माल या सेवा या दोनों की अक्तूबर, 2018 मास के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके कारबार का मूल स्थान तमिलनाडु राज्य में काडलूर, थिरुवारूर, पुदुकोट्टई, डिंडीगुल, नागापटिनम, थेनी, थंजावुर, सिवगंगई, तिरुचिरापल्ली, करूर और रामनाथपुरम में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 20 दिसम्बर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएँगे।”

[फा. सं. 20/06/17/2018—जीएसटी (भाग-I)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 44/2018, तारीख 10 सितम्बर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 855(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2018

No. 63/2018—Central Tax

G.S.R. 1147(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 44/2018-Central Tax, dated the 10th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 855(E), dated the 10th September, 2018, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided further that the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of September, 2018 for registered persons whose principal place of business is in Srikakulam district in the State of Andhra Pradesh shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 30th November, 2018:

Provided also that the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of October, 2018 for registered persons whose principal place of business is in Srikakulam district in the State of Andhra Pradesh shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 30th November, 2018:

Provided also that the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of October, 2018 for registered persons whose principal place of business is in in Cuddalore, Thiruvavur, Pudukottai, Dindigul,

Nagapatinam, Theni, Thanjavur, Sivagangai, Tiruchirappalli, Karur and Ramanathapuram in the State of Tamil Nadu shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 20th December, 2018.”.

[F. No. 20/06/17/2018-GST (Pt. I)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note : The principal notification no. 44/2018, dated the 10th September, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 855(E), dated the 10th September, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

सं. 64/2018-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1148(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), सं. 43/2018-केंद्रीय कर, तारीख 10 सितंबर, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 854(अ) तारीख 10 सितंबर, 2018, को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि जुलाई, 2018 से सितंबर, 2018 तक तिमाही के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के विवरण रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जिनके कारबार का मूल स्थान आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिले में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से, 30 नवंबर, 2018 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।"

[फा. सं. 20/06/17/2018-जीएसटी (भाग-I)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 43/2018, तारीख 10 सितंबर, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या सा.का.नि. 854(अ) तारीख 10 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2018

No. 64/2018—Central Tax

G.S.R. 1148(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 43/2018- Central Tax, dated the 10th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 854(E), dated the 10th September, 2018, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the quarter from July, 2018 to September, 2018 for registered persons whose principal place of business is in Srikakulam district in the State of Andhra Pradesh shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 30th November, 2018.”.

[F. No. 20/06/17/2018-GST (Pt. I)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note : The principal notification no. 43/2018, dated the 10th September, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 854(E), dated the 10th September, 2018.